

इसे वेबसाईट [www.govt\\_press\\_mp.nic.in](http://www.govt_press_mp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 नवम्बर 2014—कार्तिक 23, शक 1936

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्र. 3186.—कार्यालयीन अधिसूचना दिनांक 6 सितम्बर 2014 जो मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 43, भोपाल दिनांक 24 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 3827, 3829 एवं 3830 में प्रकाशित जनपद पंचायत, छिन्दवाड़ा की 18 ग्राम पंचायतों के विघटन से संबंधित अधिसूचना को मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 126(1) में प्रक्रियात्मक त्रुटि होने से एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

महेशचंद्र चौधरी, कलेक्टर.